



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ 1930 (श10)  
(सं0 पटना 37) पटना, बुधवार, 18 फरवरी 2009

सं०-1/लेखा-9/2000/442अनु०  
निगरानी विभाग,  
सूचना भवन, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार  
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 18 फरवरी 2009

विषय:-

निगरानी विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के सुदृढीकरण हेतु महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक का 01 (एक) पद, पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक के 4 (चार) पद, वरीय पुलिस उपाधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक के 10 (दस) पद, पुलिस निरीक्षक के 20 (बीस) पद, सहायक लोक अभियोजक के 03 (तीन) पद एवं वरीय लोक अभियोजक के 03 (तीन) पद, कुल 41 पदों के सृजन के संबंध में।

आदेश:-

स्वीकृत।

- सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से निगरानी तंत्र को चुस्त-दुरुस्त करने हेतु सरकार ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के सुदृढीकरण हेतु महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक के 01 (एक) पद, पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक के 4 (चार) पद, वरीय पुलिस उपाधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक के 10 (दस) पद, पुलिस निरीक्षक के 20 (बीस) पद, सहायक लोक अभियोजक के 03 (तीन) पद एवं वरीय लोक अभियोजक के 03 (तीन) पद, कुल 41 पदों के सृजन का निर्णय लिया है। उपर्युक्त में से महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक का 01 (एक) पद (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो स्थित मुख्यालय हेतु), पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक के 4 (चार) पद (क्षेत्रीय कार्यालय हेतु क्रमशः पटना, मुजफ्फरपुर भागलपुर तथा लोक आयुक्त के कार्यालय), वरीय पुलिस उपाधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक के 10 (दस) पद, पुलिस निरीक्षक के 20 (बीस) पद, सहायक लोक अभियोजक के 03 (तीन) पद एवं वरीय लोक अभियोजक के 03 (तीन) पद (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो स्थित मुख्यालय हेतु) पत्र निर्गत की तिथि से कुल वार्षिक अनुमानित व्यय 1,30,89,380/-रु० (एक करोड़ तीस लाख नवासी हजार तीन सौ अस्सी रुपये) मात्र पर उपर्युक्त पदों का सृजन किया जाता है। (व्यय विवरणी संलग्न है।)
- इस वित्तीय भार का वहन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के गैर योजना मद से किया जायगा। इसका विकलन मुख्य शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, लघु शीर्ष-104-सतर्कता, उप शीर्ष-0004-अनुसंधान ब्यूरो, विपत्र कोड N- 2070001040004, मांग संख्या-07-बजट शीर्ष से होगा।

4. राज्य सरकार का आदेश प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
राज कुमार जैन,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में अतिरिक्त पदों के सृजन की व्यय विवरणी :-

क्र० सं०	पदनाम	प्रस्तावित पदों की संख्या	एक पद पर वार्षिक व्यय	कुल प्रस्तावित पदों पर वार्षिक व्यय
1.	महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो स्थित मुख्यालय हेतु)	1	6,57,168	6,57,168
2.	पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय कार्यालय हेतु क्रमशः पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर तथा लोकायुक्त कार्यालय)	4	5,00,000	20,00,000
3.	वरीय पुलिस उपाधीक्षक/ पुलिस उपाधीक्षक, (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो स्थित मुख्यालय हेतु)	10	2,81,000	28,10,000
4.	पुलिस निरीक्षक (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो स्थित मुख्यालय हेतु)	20	2,81,000	56,20,000
5.	सहायक लोक अभियोजक (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो स्थित मुख्यालय हेतु)	3	2,64,000	7,92,000
6.	वरीय लोक अभियोजक (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो स्थित मुख्यालय हेतु)	3	4,03,404	12,10,212
	<b>कुल</b>	<b>41</b>	<b>23,86,572</b>	<b>1,30,89,380</b>

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
राज कुमार जैन,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 37-571+10-डी0टी0पी0।